


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 1977/माघ 4, 1898

No. 4] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 1977/MAGHA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1977

क्र० नि० अ० 4-ई. —केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० अ० 7-प्र. तारीख 27 जनवरी, 1976 द्वारा यह घोषित किया था कि पूर्ण छावनी के प्रशासन के लिए यह बांछनीय था कि पूर्ण छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया जाए ।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि छावनी बोर्ड के प्रशासन के लिए यह बांछनीय है कि उक्त बोर्ड की पदावधि एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जाए ।

अतः, अत्र, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त बोर्ड की पदावधि एक वर्ष की और अवधि के लिए तथा 26 जनवरी, 1978 तक और उम

तारीख को सम्मिलित करते हुए, अथवा उस तारीख तक, जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, दोनों में से जो भी तारीख पूर्वतन्त्र हो, विस्तारित करती है।

[सं० फा० 718/191/एल०/एल एण्ड सी/75/33-एस/सी०/डी (क्यू एण्ड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th January 1977

S.R.O 4-E.—Whereas the Central Government by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 7-E, dated the 27th January, 1976 declared that for the administration of Poona Cantonment it was desirable to vary the constitution of Cantonment Board, Poona.

And whereas the Central Government is satisfied that for the administration of the Cantonment it is desirable to extend the term of office of the said Board by a period of one year.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board by a period of one year upto and inclusive of the 26th January, 1978 or till a Board is constituted, under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[No. F. 718/191/L/L&C/75/33-S/C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 5-ई.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को स्टेशन के कमांडिंग आफिसर द्वारा पूर्ण छावनी बोर्ड के सदस्य के रूप में 27 जनवरी, 1977 से नामनिर्देशित किया गया है, अर्थात् —

1. लैफ्टिनेन्ट कर्नल जी० एल० गंजू—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्देशित।
2. श्री वसंतलाल शाह सुपुत्र श्री सकरचन्द—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित।

[सं० फा० 718/191/एल०/एल एण्ड सी/75/33-एस-I सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

एम० एल० दवे, संयुक्त सचिव।

S.R.O. 5-E.—In pursuance of sub-section (3), read with clauses (b) and (c) of sub-section (2), of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that the following persons have been nominated by the Office Commanding the Station to be the members of the Cantonment Board, Poona with effect from the 27th January, 1977 namely—

1. Lt. Col G L. GANJOO—nominated under Clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Sh. Vasanthalal Shah Son of Sakarchand—nominated under Clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[No. F. 718/191/L/L&C/75/33-S-I C/D(Q&C)]

M. L. DAVE, Jt. Secy

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977